

● चाइल्ड प्लान (Child Plans)

चाइल्ड प्लान आपके बच्चे की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करते हैं। यह प्लान बचत + जीवन सुरक्षा दोनों को जोड़ते हैं। अगर माता-पिता के साथ कुछ भी हो जाए तो भी बच्चे की आर्थिक सुरक्षा बनी रहती है।

✓ आसान उदाहरण

मान लीजिए आपके बच्चे की उम्र 5 साल है और आप ₹4,000 प्रति माह 15 साल तक निवेश करते हैं।

- कुल निवेश: ₹7,20,000
- मैच्योरिटी पर ₹10,00,000 – ₹12,00,000 मिल सकते हैं
- अगर माता-पिता को कुछ हो जाता है:
 - ✓ बच्चे को तुरंत आर्थिक मदद मिलती है
 - ✓ कंपनी आगे की किश्तें खुद भरती है
 - ✓ मैच्योरिटी राशि बच्चे को ही मिलती है

✓ कैसे काम करता है – स्टेप बाय स्टेप

चरण	क्या होता है
1. जल्दी शुरुआत	बच्चे के लक्ष्य जैसे शिक्षा/करियर के लिए प्लान चुनें
2. नियमित बचत	समय पर किश्तें जमा करें
3. जीवन सुरक्षा	माता-पिता के ना रहने पर भी बच्चा सुरक्षित रहता है
4. प्रीमियम माफी	आगे की किश्तें कंपनी भरती है

5. लक्ष्य पूरा	समय पर बच्चे को राशि मिलती है
----------------	-------------------------------

✓ मुख्य फायदे

- ✓ बच्चे की शिक्षा के लिए धन उपलब्ध
- ✓ बच्चे का भविष्य सुरक्षित
- ✓ माता-पिता के ना रहने पर प्लान जारी
- ✓ लक्ष्य के समय राशि मिलती है
- ✓ टैक्स लाभ

✓ अपनी ज़रूरत के अनुसार सही प्लान चुनें

क्रमांक	कौन-सा वाक्य आपकी ज़रूरत से मेल खाता है
1	बच्चे के भविष्य के लिए मार्केट-लिंक्ड उच्च रिटर्न चाहिए
2	बच्चे की शिक्षा के लिए 100% गारंटीड पैसा चाहिए
3	निवेश + लचीलापन + इंश्योरेंस एक साथ चाहिए
4	मृत्यु होने पर प्रीमियम माफ हो जाए और योजना जारी रहे
5	कॉलेज फीस के लिए सुरक्षित फंडिंग चाहिए
6	10–15 साल में उच्च ग्रोथ का मौका चाहिए

👉 अपना उत्तर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में से बताएं और हम आपको सही प्लान सजेस्ट करेंगे।